

To,
The Manager
Department of Corporate Services-Listing
BSE Limited
16th floor, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Sub: Notice of the Board Meeting published in news paper
Ref: Triveni Glass Limited (Scrip Code 502281)


Dear Sir,


This is in continuation to the letter regarding intimation of Meeting of Board of Directors of the Company scheduled to be held on 09th May, 2022. The same was published in two Newspapers i.e The Financial Express & AAJ on 01st May, 2022. The cutting of the same enclosed herewith.

Kindly find the published Notice & update the same in your record.

Thanks & Regards


For Triveni Glass Limited


Aakriti Bhushan
Company Secretary
Encl.: As per above



Regd. Off. :

1, Kanpur Road, Allahabad - 211 001, India
Phone : +91-532-2407325
Fax : +91-532-2407450
E-mail : akd@triveniglassltd.com
Website : www.triveniglassltd.com
CIN No. : L26101UP1971PLC003491



समसामयिक विषयों पर प्रकाश संग्रहित कर पुस्तक का विमोचन करते अतिथि।

राम लखन गुप्त की पाँचवीं पुस्तक सामाधिक चेतना का विधानसभा अध्यक्ष ने किया विमोचन

चाकचाटा। ग्रामीण अंचल में कार्य कर रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार राम लखन भूत की पांचवीं पुस्तक सामाजिक चेतना लेख संग्रह का गत दिवस मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष मनीष गौतम एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा विमोचन किया गया। इस पुस्तक में राम लखन गुप्ता समसामयिक विषयों पर प्रकाश संग्रहित कर पुस्तक का स्वरूप दिया पुस्तक विमोचन के अवसर पर देश के महान संत अपना आशीर्वाद प्रदान किया पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रीवा जिले के प्रसिद्ध शिव धाम देवतालाब स्थित है श्रीराम महापर्व आयोजन परिसर में किया गया पुस्तक विमोचन के दौरान तमाम संत महात्माओं के साथ है रीवा संघाम के वरिष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक व्यक्ति उपस्थित रहे इस दौरान दैनिक के विंध्य सत्ता के संपादक एसकर कुसुमाकर भोपा भोपाल से प्रकाशित अक्षर सम्राट के ब्यूरो चीफ शिवरत्न नामदेव, राम सज्जन शुक्ल (पूर्व नगर

पंचायत अध्यक्ष) राजेंद्र गौतम (भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष) भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक, कांग्रेस के प्रदेश मंत्री कौशलेश द्विवेदी, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक पांडे, किसान मोर्चा के जिला मंत्री पीनूप द्विवेदी, नगरपरिषद चाकचाट के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष एवं पार्षद उमाशंकर केसरवानी, अरुण कुमार मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष लालजी केसरवानी, संतोष कुमार गुप्ता, प्रतीक अग्रहरी, धियूष केसरवानी, आदित्य अग्रहरी, सुवर्ण तिवारी, रमाकॉन्ट आदि विषय रूप से उपस्थित रहे। पत्रकार राम लखन गुप्त की अब तक प्रकाशित पुस्तक साक्षरता के गीत, पत्थर के देव (काव्य संग्रह) ढाई आखर (लेख संग्रह) भारत में विदेशी आक्रमण (इतिहास) है। उनकी पाँचवीं पुस्तक सामाजिक चेतना (लेख संग्रह) पर प्रकाशन एवं गरिमामय विमोचन साहित्यकार डॉ. त्रिलोकी सिंह मानस मण्डल आदि साहित्यकारों ने उन्हे बधाई दी है।

फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

प्रतापपुर (प्रयागराज)। थाना सराय ममरेज क्षेत्र के मसाड़ी गांव निवासीदया राम बनवास २२ की पत्नी कोडेना की डिलीवरी करीब थी जिसकी तबीयत एक हफ्ते पहले खराब होने से मौत हो जाने पर आहत पति दशराम सुक्रवार की रात घर के सामने बन्धन सिंह की बगिया में आम की डाल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसकी जानकारी सुबह होने पर परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दी

समाधान दिवस पर जुटे फरियादी

करछना (प्रयागराज)। थाना करछना में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार रमेश पांडेय के समक्ष १० शिकायतें आईं मौके पर फरियदा लेकर आये फरियादियों को मान्य होकर लाशना पडा बकवत प्रथारी ने पुलिस और राजस्व टीमा गठित कर मौके पर जाकर शिकायतों के निस्तारण की बात कहीराजस्व से जुड़ी तीन शिकायतों के लिए तत्काली मौके पर टीमा को भेजकर निस्तारण कराया गयाआय शिकायतों के लिए टीमा द्वारा मौके पर दोनो पथकी मौजूदगी में निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गये। इस मौके पर उध निरीक्षक विनोद यादव हरिप्रकर मिश्रा,बैजनाथ तिवारी आदि राजस्व और पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

दीवार को तोड़कर चोरों ने नगदी समेत हजारों के आभूषण की चोरी

करछना (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचदेवरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की दीवार को तोड़कर चोरों की वारदात को अंजाम दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक उक्त गांव निवासी मुन्नीलाल पटेल बच्चों से अलाय होकर पटेल के साथ घर से थोड़ीदू दूर पर खेत में एक कमरा मकान बनाकर रहते हैं। सुक्रवार को रात दोनो लोग रोहनाका की तरह खाना पीना करने के बाद गर्मी का दिन होने के कारण बाहर चारपाई लगाकर सो गए। उसी बीच देर रात होने पर अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की दीवार को तोड़कर कमरे के अंदर रखा गया बासक को अपने साथ उठा ले गए। वहीं घर से २०० मीटर की दूरी पर ले जाकर उसमें लछा गया १० हजार रुपए लगदी लछागया ८० हजार रुपए तक के आभूषण को घर कर दिया। सुबह

शौच करने गए ग्रामीणों को खेत में साहजक बिखरा हुआ देखे जाने पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी भुक्तभोगी ने फोन के माध्यम से स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची करछना पुलिस ने लिखा पढ़ी कर चली गई। करछना क्षेत्र में एक नगदी बचवान के नाम पर ३९ लाख उधारी लिया मांगने पर मारा पीटा, मुकदमा दर्ज मऊआइमा (प्रयागराज)। मकान बचवान के नाम एक व्यक्ति से ३९ लाख रुपये उधारी लिया गया पैसा देने के नाम पर थाना की मन्दिर पर बुला कर धमका कर स्टाम पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया गया। और मारा पीटा गया। भुक्तभोगी ने तीन नामजद दो अज्ञातों के खिलाफ मऊआइमा थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है।

वीरेंद्र कुमार सोनी पुत्र कृपा संकर सोनी ६० एम नवाब युसुफ रोड सिविल लाइंस प्रयागराज का आरोपी है। केंद्र असाक मकान बचवान के नाम पर आशीष कुमार गुप्ता आदि ने ३९ लाख रुपये उधारी लिया तथा पैसा मांगने पर आज करल पर आरोप रहे। वीरेंद्र कुमार सोनी का टाइटल है कि पैसा वापस देने के लिए उसे मऊआइमा के थाना स्थित मन्दिर पर बुलाया गया और उसमें यादें स्टाम पेपर पर हस्ताक्षर बनावा कर मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। वीरेंद्र कुमार सोनी ने मऊआइमा थाने में आशीष कुमार गुप्ता, गोपाल गुप्ता, अंकित गुप्ता तथा दो अज्ञात निवासी ममफोर्डिंग थाना कर्नलराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

विद्युत कटौती से लोग परेशान करछना (प्रयागराज)। इन दिनों रहे रही बिजली की कटौती से लोगों को दो चार होना पडा रह है बीते पखारेपर से अनियमित कटौती के चलते इस पाँचप गर्मी में लोग बिजली के लिए जह्म खान रहे हैं। बिजली कटौती के चलते पानी की किल्लू भी बढ गई है।करछना विद्वान सब स्टेशन से जुडे करछना समेत हिन्दुपुर,करेछा चैनीनी, हरदुआ, चटवा सोनी, तौरैल बसरिया सहित दर्जनों गांव के लोग बिजली की कटौती से हलकान हो रहे हैं।

ज्ञान मण्डल लिमिटेडके लिए जितेन्द्र नुमार सिंह द्वारा ज्ञानमण्डल यंत्रालय, ३ लीडर ज्ञानमण्डल अकादमी मुद्रित तथा लीडर बिल्डिंग, ३ लीडर रोड, प्रयागराज से प्रकाशित।	सम्पादक:शार्दूल विक्रम गुप्त
स्थानीय सम्पादक-जितेन्द्र सिंह वाराणसी : सन्त कबीर मार्ग गोखरपुर : बैंक रोड कानपुर : बांसमण्डी लखनऊ : १,जापलिंग रोड आगरा : महात्मा गांधी रोड बरेली : रोड नं. ३,परसाखेड़ा पटना : फ्रेजर रोड	रामशेदपुर: कालीमाटी रोड धनबाद : कतरास रोड
वर्ष-२७ पु.सं. (१७४३) रजिस्ट्रेशन संख्या-५९७११/१५	दूरभास: २६१५०८०,२६१६५४
E-mail:ajald@yaho.com ajald@rediffmail.com alldaj@yahoo.com	
पी.आर.बी. अधिनियमके अन्तर्गत सम्पादकके चयनके लिए जितेन्द्र सिंह जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद जनपद न्यायालय, प्रयागराजके अधीन होंगा।	

मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है अवैध खनन

हंडिया (प्रयागराज) हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के खेतों में मशीनों से खनन घडलू से बढसूर जारी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन संचालकों को बुद्ध पुलिसकर्मियों का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस संरक्षण के कारण ओवरलैड वाहनों को देखकर भी अन्देखा किया

जा रहा है। वहीं खनन संचालक द्वारा आस पास खेतों के रास्तों को भी बंद करा दिया गया है। जिससे लोगों को बहं होने वाले खनन के दायरे और औसतन का पता ही न चल सके। गांव के पास जेसीबी, मशीनों से खेतों का सीना चीकर प्रतिदिन भारी मात्रा में मिट्टी निकाला जा रहा है। लेकिन

रमज़ान के बाद भी बुराइयों से दूर रहें -फजलुर रहमान

मऊआइमा (प्रयागराज)। रमजान का महौना ज़िंदगी में तबदीली के लिए आता है अगर रमजान के बाद भी हम बुराइयों से दूर रहें और अच्छाई के काम कर रहे हैं तो पवित्र रमजान के संदेश पर हमने अमल किया उक्त बातों पर आलिम मुफ़्ती फजलुर रहमान कासामी इलाहाबादी ने अलविदा की नमाज़ से पहले अपने बयान में जामा मस्जिद में कही उन्होंने कहा की सबसे बड़ी नेकी यही है कि हम अपनी ज़बान और हाथ से दूसरों को तकलीफ ना दे प्यारी नबी का फरमान है कामिल मोमिन वह वह आदमी है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे भाई महफूज़ रहे उन्होंने कहा कि ज़मीन वालों पर रहम का मामला करो उनका धर्म कुछ भी हो उनके साथ अच्छा व्यवहार करो यही इस्लाम की शिक्षा है।

इस मौके पर मुफ़्ती कासामी ने कहा अलविदा के लिए साथ ही साथ अच्छा मामला करो वह किसी भी धर्म से हों उन्होंने कह रमजान के बाद भी

नमाज़ का एहतितामा करें,उन्होंने कहा नमाज़ इस्लाम की बहुत ही अहम इबादत है नमाज़ पढ़े बगैर अल्लाह की नज़दीकी हासिल नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा गरीबों की इस अवसर पर मदद करें ताकि वह भी ईद की खुशियां अच्छे से मना सकें, नमाज़ अलविदा के बाद देश की तरक्की खुश हाली आपसी भाई चारा खलमती के लिए साथ तौर से दुआ की गयी।

सूचना-मैं अपना नाम मंजू सिंह से बदलकर मंजू लता पत्नी श्री शत्रुघ्न सिंह नि. फ्लैट नं. 3, हनुमान बाग, नया ममफोर्डिंग, प्रयागराज (उ.प्र.) कर रही हूं। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एव पहचाना जायें।

Triveni Glass LTD
 J.Kanpur Road,Allahabad 211001
 CIN: L26101UP1971PLC003491;
 Website: www.triveniglassttd.com;
 Email: akd@triveniglassttd.com;
 Tel: 0532-2407325
NOTICE
 This is to inform you that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, 09th May 2022 at 12:30 Noon, to consider and approve the Audited Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2022. **Aakriti Bhusan** Date: 30.04.2022 Company Secretary Place: Prayagraj & Compliance Officer

बाबा में भागवत महापुराण की निकली कलश यात्रा

बाबा (प्रयागराज)। प्रयागराज बाबा तहसीली मुख्यालय के लाल का पुरा स्थित विश्व पर नाथ ग्रामोदय श्रद्धालय में आयोजित सात दिवसीय विद्वाम्नायक महापुराण ज्ञान यज्ञ की कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में पुरुष व महिलाओं के साथ मुख्य यज्ञमान सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव एवम रत्ना श्रीवास्तव ने यात्रा की अगुवाई मार्ग पर टूटकर मिट्टी लाद कर खुलेआम जा रहे हैं। अवैध खनन के होते हुए खनन के गन्दे पत्थर के कारण सरकार को भारी राजस्व छति भी हो रही है फिर भी जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं जो जांच का विषय है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कौंगपुर वि.खं. धनुपुर प्रयागराज	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कौंगपुर में वि. खं. धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण, नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट, व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल. इन्क्यू. एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्य कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग, मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01.05.2022 से 03.05.2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 03.05.2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022/2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	राजनीति विद्वान ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कौंगपुर में वि. खं. धनुपुर, जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कौंगपुर में वि. खं. धनुपुर, जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत कबीरस्टीन वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कबीरस्टीन में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	व्यवसाय देवी ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कबीरस्टीन वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत कबीरस्टीन वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत बहुरूप वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बहुरूप में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	उद्योग देवी ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बहुरूप वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बहुरूप वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत बलापुर वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बलापुर में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	छोलेलाल ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बलापुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत बलापुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत मकदूमपुर वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत मकदूमपुर में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	सुनाना देवी ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत मकदूमपुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत मकदूमपुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत श्रीपुर वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत श्रीपुर में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	निर्मला देवी ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत श्रीपुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत श्रीपुर वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत पूरे लुटई वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत पूरे लुटई में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु प्रभावी होगा।	प्रमोला देवी ग्राम प्रधान
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत पूरे लुटई वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत पूरे लुटई वि०ख० धनुपुर जनपद-प्रयागराज	वर्ष 2022-23

कार्यालय ग्राम पंचायत दिवौदा वि०ख० धनुपुर, जनपद- प्रयागराज

वर्ष 2022-23	निविदा सूचना	दिनांक 30/04/2022
वर्ष 2022-23	ग्राम पंचायत दिवौदा में विकासखंड धनुपुर जनपद प्रयागराज में 15 वीं वित्त/वर्षम राज्य वित्त आयोग मन्त्रेणा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली निर्माण नाली मरम्मत एवं पाइप, खड्डना मरम्मत कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्र, शौचालय निर्माण एवं मरम्मत, पंचायत भवन निर्माण, मरम्मत, सोलर लाइट, इस्टर्दिन सफाई किट व सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आवास निर्माण कार्य आदि में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री जैसे इंटरलाकिंग ईट, सीमेंट, लाल ईट, बालू, मिट्टी, एम.एल.इन्क्यू.एम.ए.एम., सरिया, स्टोन फिट, जीएसबी, दरवाजा, पेट, टाइल्स, ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त कार्यो कोराना वायरस सम्बन्धित साफ सफाई का कार्य व चबूतरा निर्माण, मार्क सेनेटाइजर, क्लोरोफॉ, स्प्रे मशीन, दरताना, धर्मल, स्कैनिंग मशीन, पंचायत भवन, अन्वेषि स्थल के निर्माण कार्य व मरम्मत सहित आदि कार्यो में आपूर्ति की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता व्यापार कर वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हो निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 01-5-2022 से 3-5-2022 तक निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा होगा। निविदा दिनांक 3-5-2022 को अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कन के अनुसार प्रयुक्त-प्रयुक्त होगा। उक्त निविदा वर्ष 2022-2023 में कराये जाने वाले विकास कार्यो हे	

Addendum to FORM G Published on 04.03.2022 in the matter of WIANXX IMPEX PRIVATE LIMITED

FE SUNDAY

13

Triveni Glass LTD
1, Kanpur Road, Allahabad-211001
CIN: L26101UP1971PLC003491;
Website: www.triveniglassltd.com
Email: akd@triveniglassltd.com;
Tel: 0532-2407325

NOTICE
This is to inform you that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, 09th May 2022 at 12:30 Noon, to consider and approve the Audited Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2022. Aakriti Bhushan Date: 30.04.2022 Company Secretary Place: Prayagraj & Compliance Officer



The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

ZENOTECH LABORATORIES LIMITED

CIN: L27100TG1989PLC010122
Survey No.250-252, Turkapally (V), Shameerpet (M), Hyderabad - 500078
Phone: +91 90320 44584/585/586 Website: www.zenotechlab.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022

(Rs. in lakhs, except share and per equity share data)

PARTICULARS	Quarter ended			Year Ended	
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	Audited*	Unaudited	Audited*	Audited	Audited
Total Income from operations (net)	890.92	1,031.36	819.02	3,719.44	2,285.36
Net Profit/(Loss) before exceptional items and tax	184.58	361.27	117.94	990.13	(121.51)
Exceptional items	-	-	-	-	-
Net Profit/(Loss) after exceptional items and tax	184.58	361.27	117.94	990.13	(121.51)
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1,418.08	361.41	120.88	2,223.19	(122.08)
Paid-up equity share capital	6,103.06	6,103.06	6,103.06	6,103.06	6,103.06
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year	-	-	-	960.95	(1,262.24)
Earnings/ (loss) per share (Basic & Diluted) (Face value Rs. 10/- per share)	2.31	0.59	0.19	3.63	(0.20)

- Notes:**
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on April 29, 2022.
 - These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
 - The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year upto March 31, 2022/March 31, 2021 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2021/ December 31, 2020, being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subject to limited review.
 - The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.zenotechlab.com).
- By order of the Board
for **Zenotech Laboratories Limited**
Sd/-
Azadar Hussain Khan
Chairman
DIN-01219312
- Date : April 29, 2022

Central Depository Services (India) Limited

Registered Office: A-2501, Marathon Futurex, A Wing, 25th Floor, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 CIN: L67120MH1997PLC112443

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(All figures in Rs. Lakh except EPS)

Sr. No.	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter ended		Year Ended			Quarter ended		Year Ended		
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	Income from operations	13,655.79	15,151.90	10,308.81	55,133.08	34,371.71	10,038.75	11,380.10	7,940.55	41,480.33	27,058.39
2	Other Income	1,146.52	1,141.61	716.66	5,456.88	5,691.70	858.25	775.25	558.54	6,532.76	4,176.60
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items and share of profit/(loss) of Associates)	9,855.34	11,149.34	6,892.00	40,995.92	25,952.34	7,216.00	8,462.41	5,592.64	33,734.67	20,636.58
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items and share of profit/(loss) of Associates)	9,811.31	11,104.34	6,892.00	40,854.72	25,952.34	7,216.00	8,462.41	5,592.64	33,734.67	20,636.58
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items and share of profit/(loss) of Associates)	7,811.86	8,363.48	5,164.49	31,180.81	20,126.73	5,847.10	6,376.66	4,196.94	26,376.24	16,005.76
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,883.01	8,338.88	5,189.06	31,037.42	20,117.83	5,849.42	6,362.37	4,221.26	26,158.28	16,001.13
7	Equity share capital	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
8	Other equity	-	-	-	98,841.84	77,272.11	-	-	-	74,562.69	57,809.41
9	Earnings per equity share (FV ₹ 10 each) Basic and Diluted (₹) (Not annualised except yearly data)	7.43	8.01	4.95	29.78	19.17	5.60	6.10	4.02	25.24	15.32

- Notes:**
- The audited consolidated and standalone financial results of the Company for the quarter / year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on April 29, 2022.
 - The above is an extract of the detailed audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited consolidated and standalone financial results for the quarter / year ended March 31, 2022 are available on the National Stock Exchange (NSE) website (www.nseindia.com) and on Company's website (www.cdslindia.com).
 - Figures for the previous period / year have been regrouped / rearranged wherever necessary.
 - The Board of Directors at its meeting held on April 29, 2022 have recommended a payment of dividend of ₹ 15/- per equity share of FV ₹ 10/- each, subject to the approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

For CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED

Sd/-
Nehal Vora
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : April 29, 2022

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NOTICE-CUM-ADDENDUM



Notice is hereby given that the Board of Directors of Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (KMAMC) and Kotak Mahindra Trustee Company Limited (KMTC) have approved the merger of the following Fixed Maturity Plans (Merging Schemes) into Kotak Corporate Bond Fund (Surviving Scheme) in accordance with the provisions laid under Regulation 18(15A) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date.

Name of the Merging Scheme(s)	Effective Date of Merger (i.e. on Maturity Date of Merging Schemes)	Positive Consent opening date (Merging scheme)	Positive Consent closing date (Upto 3.00 p.m.) (Merging scheme)
Kotak FMP Series 250 - 1314 Days	June 01, 2022	May 02, 2022	May 31, 2022
Kotak FMP Series 256 - 1250 Days	June 03, 2022	May 04, 2022	June 02, 2022
Kotak FMP Series 263 - 1203 Days	June 16, 2022	May 17, 2022	June 15, 2022
Kotak FMP Series 265 - 1194 Days	June 21, 2022	May 22, 2022	June 20, 2022
Kotak FMP Series 267 - 1182 Days	June 23, 2022	May 24, 2022	June 22, 2022
Kotak FMP Series 257 - 1267 Days	June 30, 2022	May 31, 2022	June 29, 2022

The merger will not result in emergence of any new schemes as aforesaid FMP schemes will be merged in the surviving scheme, viz. Kotak Corporate Bond Fund. Post-merger, there will be no change in features of the Surviving scheme and the investments under the Surviving Scheme will be in accordance with the investment objective and asset allocation of the Surviving Scheme.

For detailed scheme features of the Merging Schemes and Surviving Scheme, please refer the given link: https://www.kotakmf.com/documents/Annexure_to_Notice_FMP. Investors are requested to read the Scheme Information Document (SID) of the Schemes. For further details available at [kotakmf.com](https://www.kotakmf.com)

Basis of allocation of units of the Surviving Scheme:

The "Merging Scheme" shall cease to exist post the business hours of the Effective date[^]. The unit holders of the "Merging Scheme" will be allotted units in the "Surviving Scheme" equivalent to the value of their units held in the "Merging Scheme" at the close of business hours of the Effective date[^], at the NAV of this day.

[^] or the immediately following Business Day, if such day is not a Business Day.

An illustration explaining the same is as follows:

(All figures in the table below are purely for illustrative purpose only and the actual number of units to be allotted under the "Surviving Scheme", will be determined by the value of units held in the "Merging Scheme" and "Surviving Scheme" on the Maturity date of the Merging Scheme.

Completion Date^{*} - As on Date of Merger

Switch Out from Merging Scheme					Stamp Duty 0.005%	Switch In at Surviving Scheme				
Scheme Name	Plan	Units	NAV Rs	Value Rs	Rs	Scheme Name	Plan	Units	NAV Rs	Value Rs
A	B	C	D	E=C*D	F=E*0.005%	G	H	I=K/J	J	K
Kotak FMP Series	Regular Plan - IDCW	1000	13.2685	13,268.50	0.67	Kotak Corporate Bond	Regular Plan - IDCW	12.687	1045.7633	13,267.83
Kotak FMP Series	Regular Plan - Growth	1000	13.2685	13,268.50	0.67	Kotak Corporate Bond	Regular Plan - Growth	4.425	2998.3932	13,267.83
Kotak FMP Series	Direct Plan - IDCW	1000	13.3052	13,305.20	0.67	Kotak Corporate Bond	Direct Plan - IDCW	12.290	1082.5132	13,304.53
Kotak FMP Series	Direct Plan - Growth	1000	13.3051	13,305.10	0.67	Kotak Corporate Bond	Direct Plan - Growth	4.303	3092.0828	13,304.43

*Completion Date means the Date on which the units of "Surviving Scheme" will be allotted to investors of the "Merging Scheme".

Consequently, upon the merger of schemes, the unit holders of the Merging Scheme shall be allotted units under the corresponding Plan/ Option/Facility under Surviving Scheme as per matrix provided below:

Units held under following Plan/ Option of the Merging scheme	Units held under following Plan/ Option of the Surviving scheme
Kotak FMP - Series 250 (1314 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 250 (1314 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 250 (1314 Days) - Regular - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 250 (1314 Days) - Direct - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW
Kotak FMP - Series 256 (1250 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 256 (1250 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 256 (1250 Days) - Regular - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 256 (1250 Days) - Direct - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW
Kotak FMP - Series 257 (1267 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 257 (1267 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 257 (1267 Days) - Regular - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 257 (1267 Days) - Direct - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW
Kotak FMP - Series 263 (1203 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 263 (1203 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 263 (1203 Days) - Regular - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 263 (1203 Days) - Direct - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW
Kotak FMP - Series 265 (1194 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 265 (1194 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 265 (1194 Days) - Regular - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 265 (1194 Days) - Direct - Payout of IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW
Kotak FMP - Series 267 (1182 Days) - Direct - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - Growth
Kotak FMP - Series 267 (1182 Days) - Regular - Growth	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - Growth
Kotak FMP - Series 267 (1182 Days) - Regular - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Regular - IDCW
Kotak FMP - Series 267 (1182 Days) - Direct - IDCW	Kotak Corporate Bond Fund - Direct - IDCW

For Latest Portfolio, Net Asset Value and Performance of Merging Scheme and Surviving Scheme, please refer our website <https://www.kotakmf.com>

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has also communicated it's no objection for the above changes vide its email dated April 07, 2022.

Exit Option:

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/MFD/CIR No. 05/12031/03 dated June 23, 2003 read with SEBI Circular No. Cir/MD/DF/15/2010 dated October 22, 2010, merger of Kotak FMP Series 250, Kotak FMP Series 256, Kotak FMP Series 263, Kotak FMP Series 265, Kotak FMP Series 267 and Kotak FMP Series 257 into Kotak Corporate Bond Fund is considered as change in the fundamental attributes and consequently, as per Regulation 18 (15A) of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 any change in fundamental attributes can be carried out after a written communication is sent to all the unit holders of Kotak Corporate Bond Fund, giving them an option of at least 30 days to redeem/switch their investments at the prevailing NAV, without payment of any exit load.

Accordingly, the existing unit holders of Kotak Corporate Bond Fund (i.e. whose names appear in the register of unit holders as on close of business hours on April 29, 2022) are hereby given an option to exit, i.e. either redeem their investments or switch their investments to any other schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund, within the exit option period starting from May 02, 2022 till June 30, 2022 (both days inclusive and upto 3.00 pm on June 30, 2022 at Applicable NAV, without payment of any exit load. The Exit Option can be exercised during the Exit Option Period by submitting a valid redemption / switch-out request at any Official Point of Acceptance of the Fund. For list of Official Points of Acceptance, please visit our website <https://www.kotakmf.com>.

Further, no exit load shall be levied in respect of the units of the Surviving Scheme i.e. Kotak Corporate Bond Fund which are allotted to the investors of the Merging Schemes i.e. Kotak FMP Series 250, Kotak FMP Series 256, Kotak FMP Series 263, Kotak FMP Series 265, Kotak FMP Series 267 and Kotak FMP Series 257.

All the valid applications for redemptions/switch-out received under the Surviving Scheme shall be processed at Applicable NAV of the day of receipt of such redemption/switch-out request, without payment of any exit load, provided the same is received during the exit option period mentioned above.

Unit holders who have pledged or encumbered their units will not have the option to exit unless they procure a release of their pledges / encumbrances prior to the submission of redemption / switch requests and appropriately communicate the same to the Fund / Registrar prior to submission of redemption/switch requests.

Unit holders should ensure that their change in address or bank details are updated in records of Kotak Mahindra Mutual Fund as required by them, prior to exercising the exit option for redemption of units. Unit holders holding units in dematerialized form may approach their Depository Participant for such changes. In case units have been frozen / locked pursuant to an order of a government authority or a court, such exit option can be exercised only after the freeze / lock order is vacated / revoked within the period specified above. The redemption proceeds shall be dispatched within 10 business days of receipt of valid redemption request to those unit holders who choose to exercise their exit option.

Kindly note that an offer to exit from the Surviving Scheme is merely optional and is not compulsory.

Consent of Unitholders of Merging Scheme

In case of unitholders of Merging Scheme having no objection to the proposed merger in Surviving Scheme and wanting to remain invested need to provide consent in the following manner:

The consent form for merger is being sent along with the merger proposal letter. Consent form is also made available on our website [kotakmf.com](https://www.kotakmf.com). Investors may submit their consent latest by 3.00 p.m. on the closing date of positive consent period for respective FMP scheme through any of the following modes:

- Submitting original signed consent form at any of the Official Points of Acceptance; or
- Digitally, sending the consent by accessing the below links which has been sent to the email ids registered under the folio.

Name of the Merging Scheme(s)	Links
Kotak FMP Series 250	https://bit.ly/3KbIDHK
Kotak FMP Series 256	https://bit.ly/3kb9QP5
Kotak FMP Series 263	https://bit.ly/3LIZ848
Kotak FMP Series 265	https://bit.ly/3Mtic0f
Kotak FMP Series 267	https://bit.ly/3Kk04dn
Kotak FMP Series 257	https://bit.ly/3vNq2eC

Unitholders who do not submit the duly filled consent form within the aforesaid timelines or who do not wish to consent to the aforesaid merger, will receive the redemption proceeds based on the applicable NAV as on the Maturity date and redemption proceeds shall be remitted/dispensed to such unitholders within 10 (ten) working days from Maturity date.

If the units are held in dematerialized form, the unitholders are requested to contact their Depository participant.

Unitholders of the Merging Scheme who have pledged or encumbered their units will not have the option to provide consent unless they procure a release of their pledges / encumbrances and appropriately communicate the same to the Fund/Registrar, before submission of the consent form.

Once the consent is provided unitholder(s) are deemed to have read and provide the confirmations and declarations, as per the consent form.

Tax impact on the unit holders:

The tax implications with respect to the unit holders of the Scheme is based on relevant provisions of the Indian Income-tax Act, 1961 (the "Act"), as may be amended from time to time.

FOR DETAILS ON TAXATION, PLEASE REFER TO THE CLAUSE ON TAXATION IN THE SAI. IN VIEW OF THE INDIVIDUAL NATURE OF TAX IMPLICATIONS, EACH INVESTOR IS ADVISED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISER WITH RESPECT TO THE SPECIFIC TAX IMPLICATIONS ARISING OUT OF HIS OR HER PARTICIPATION IN THE SCHEME.

Any Transfer by a unit holder of a capital asset, being unit or units, held by him in the consolidating scheme of a mutual fund, made in consideration of the allotment to him of a capital asset, being a unit or units, in the consolidated scheme of mutual fund would not be considered as "transfer" by virtue of the provisions of section 47(xviii) of income tax act and hence would not be chargeable to tax.

As per section 47(xviii) of the Income-tax Act, 1961, allotment of units in Transferee Scheme, pursuant to merger, to unit holders of Transferor Scheme who decides to continue will not be considered as redemption of units in Transferor Scheme and will not result in short term/long term capital gain / loss in the hands of the unit holders. Further, the period for which the units in the Transferor Scheme were held by the Unit holders will be included in determining the period for which such units were held by the unit holder and the cost of acquisition of units allotted in Transferee Scheme pursuant to merger will be the cost of acquisition of units in Transferor Schemes, vide explanation 1(i)(hd) to section 2(42A) and section 49(2AD) of the Income Tax Act, 1961 respectively.

Consequently, such allotment to investors of units into Kotak Corporate Bond Fund in exchange for cancellation of units held in Merging Scheme will not be treated as a taxable transfer.

Please note that the aforesaid tax neutrality on consolidation/merger of mutual fund schemes is subject to compliance of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Units being held as 'Capital assets'.

However, redemption of units from the Transferor Scheme and/or switch-out of units of the Transferor Scheme to any other scheme of the Fund shall be considered as redemption in Transferor Scheme and will result in short term/long term capital gain/loss in the hands of the unit holders depending on the period of holding of the investment. In case of NRI investors, TDS shall be deducted in accordance with applicable tax laws for redemption/switch-out of units from Transferor Scheme and same would be required to be borne by such investor only.

This addendum forms an integral part of Scheme Information Document (SID), Statement of Additional Information (SAI) and Key Information Memorandum (KIM) of the respective schemes.

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
Investment Manager - Kotak Mahindra Mutual Fund

Mumbai
April 30, 2022

Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited

CIN: U65991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund)

6th Floor, Kotak Towers, Building No. 21, Infinity Park, Off: Western Express Highway, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (East), Mumbai 400097.

Phone Number: +918048893330 • Email: mutual@kotak.com • Website: [kotakmf.com](https://www.kotakmf.com)